



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
 भारत मौसम विज्ञान विभाग  
 गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
 उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 12-04-2022

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2022-04-12 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2022-04-13	2022-04-14	2022-04-15	2022-04-16	2022-04-17
वर्षा (मिमी)	2.0	5.0	8.0	1.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	29.0	28.0	26.0	27.0	27.0
न्यूनतम तापमान(से.)	15.0	14.0	13.0	11.0	11.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	35	45	45	40	40
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	25	30	30	25	20
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	6.0	8.0	6.0	6.0	6.0
पवन दिशा (डिग्री)	120	120	120	100	100
क्लाउड कवर (ओक्टा)	5	6	4	2	1

### मौसम सारांश / चेतावनी:

आगामी पांच दिनों में, 12 व 15 अप्रैल को कहीं-कहीं बूँदा-बाँदी तथा 13 व 14 अप्रैल को हल्की वर्षा हो सकती है। अधिकतम एवम् न्यूनतम तापमान क्रमशः 26.0 से 28.0 व 13.0 से 14.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हवा के 6.0 किमी/घंटे की गति से पूर्व व पूर्व-दक्षिण-पूर्व दिशा से चलने का अनुमान है। ईआरएफएस के अनुसार, 17 से 23 अप्रैल के दौरान राज्य में वर्षा सामान्य से कम तथा अधिकतम व न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है।

### सामान्य सलाहकार:

किसान भाई पिछले सप्ताह के मौसम, मौसम पूर्वानुमान और मौसम आधारित कृषि सलाह प्राप्त करने के लिए "मेघदूत ऐप" तथा आकाशीय बिजली के पूर्वानुमान हेतु "दामिनी एप" डाउनलोड करें। मेघदूत व दामिनी ऐप को गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं) और ऐप स्टोर (आईओएस उपयोगकर्ताओं) से डाउनलोड किया जा सकता है। ईआरएफएस के अनुसार, 17 से 23 अप्रैल के दौरान राज्य में वर्षा सामान्य से कम तथा अधिकतम व न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है।

### लघु संदेश सलाहकार:

आगामी पांच दिनों में 12 व 15 अप्रैल को कहीं-कहीं बूँदा-बाँदी तथा 13 व 14 अप्रैल को हल्की वर्षा होने की सम्भावना है। फसलों की कटाई मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर करें।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	गेहूँ की कटाई एवं मड़ाई का कार्य मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर करें। भंडारण से पहले काटे गए अनाज को पर्याप्त रूप से सुखाना चाहिए।
मसूर की दाल	फसलों की कटाई मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर करें। दलहनी फसलों की कटाई फसल पकने के तुरंत बाद सुबह के समय करें अन्यथा दाने झड़ने से नुकसान होता है। भण्डारण से पूर्व दानों को अच्छी तरह से सुखा लें।
चावल	पर्वतीय क्षेत्रों में, असिंचित दशा में चेतकी धान की बुवाई करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
बैंगन	ऊँचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र में तक बैंगन, टमाटर, शिमलामिर्च का प्रतिरोपण करें तथा आवश्यकतानुसार जीवन रक्षक पानी पौधों को सुलभ करायें। साथ ही साथ नमी संरक्षण की समुचित व्यवस्था रखें।
आम	गुम्मा रोग से ग्रस्त बौर को तोड़कर निकाल देना चाहिए।
अरबी	भाबर क्षेत्रों में, इस माह अरबी की अगेती किस्म की बुवाई करें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	पशुओं में मेस्टाईटिस के लक्षण दिखाई देने पर इसका तुरंत इलाज करें। इस गर्मी के दिनों में पशुओं के लिए पानी की उचित व्यवस्था करें। पीने के पात्र को साफ रखना चाहिए और दिन के समय पशुओं को कम से कम चार बार पानी जरूर पिलाये। गर्मी की लहरों से बचने के लिए उचित वेंटिलेशन प्रदान करें।